



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, दिसम्बर 5—दिसम्बर 11, 2004, शनिवार/अग्रहायण 14—अग्रहायण 20, 1926
No. 29] NEW DELHI, DECEMBER 5—DECEMBER 11, 2004, SATURDAY/AGRAHAYANA 14—AGRAHAYANA 20, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2004

आ० अ० 73.—यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट राजस्थान लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन

वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरर्हता घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता के कारण
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	7-दौसा	श्री रमेश, ग्राम घाटा जिला गुड़गांव, हरियाणा	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	—वही—	19-चित्तौड़गढ़	श्री एस. एस. स्टोन, 1 ज 16 टीचर्स कॉलोनी, कोटा, राजस्थान	—वही—

[सं० 76/राज०-लो०सं०/2004 (2)]

आदेश से,

के० आर० प्रसाद, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th December, 2004

O.N. 73.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2004 for the State of Rajasthan specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1.	General Election to the Lok Sabha, 2004.	7-Dausa	Sh. Ramesh, Vill.—Ghata, Distt.—Gurgaon, Haryana	Account not lodged.
2.	—do—	19-Chittorgarh	Sh. S. S. Stone, 1 J 16 Teachers Colony, Kota, Rajasthan.	—do—

[No. 76/RJ-HP/2004 (2)]

By Order,

K. R. PRASAD, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2004

आ० अ० 74.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 10-संगरूर लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले श्री दलजीत सिंह, गांव व डाक सेहना, तहसील बरनाला, जिला संगरूर, पंजाब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और श्री दलजीत सिंह ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री दलजीत सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :

[सं० 76/पंजाब-लोक सभा/2002 (2)]

आदेश से,

के० अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th December, 2004

O.N. 74.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Daljit Singh, V&PO Sehna, Tehsil Barnala, District Sangrur, Punjab a contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha, 2004 from 10—Sangrur Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and order made thereunder; and

Whereas, Shri Daljit Singh has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Shri Daljit Singh, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/PB-HP/2004(2)]

By Order,

K. AJAY KUMAR,, Secy.